

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 मई 2014—ज्येष्ठ 1, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन भवन  
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 मई 2014

क्र. एफ 57-01-2014-तीन 965.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, आयोग की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 जिसका प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक-521 में दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 को हुआ है, के भाग-2 पार्षद के लिए विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक की सूची में क्रमांक-33 में अंकित प्रतीक “कुल्हाडी” को एतद्वारा विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

दूरभाष क्रमांक 0755-2555527